



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 556[नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1976/पौष 31898

No. 556] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1976 PAUSA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th December 1976

S.O. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2121, dated the 4th June, 1976, published in Part II, Section-3(ii) of the Gazette of India, dated the 19th June, 1976, the Central Government hereby appoints, the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, as the Chairman of the Central Board of Trustees and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 236, dated the 16th December, 1975, namely:—

In the said notification for the entry against Serial No. 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi."

[No. V, 20012(1)/75-PFII]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

क्र० प्र० 830 (प्र).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत

के राजपत्र भाग 2, खंड 3 (2) तारीख 19 जून, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2121 तारीख 4 जून, 1976 का अधिक्रमण करते हुये केन्द्रीय सरकार सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 236 दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“सचिव, श्रम मंत्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली।”

[सं० बी०-20012 (1)/75-पी० एफ० II]

S.O. 831(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948) the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4008 dated the 21st November, 1972 namely:—

In the said notification for the entry against serial No. 1, the following entry shall be substituted, namely:—

“1. The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, Chairman”.

[No. V. 21012/1/75-PF.I]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

का० आ० 831 (घ).—कोयला खान अधिष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4008, तारीख 21 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी अर्थात् :—

“1. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली”

अध्यक्ष।

[सं० बी०-21012 (1)/75-पी० एफ० I]

एस० एस० सहस्ररामन, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,